



## **भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड**

### **प्रेस रिलीज़**

#### **एससीआई में हिंदी दिवस के अवसर पर प्रतियोगिताओं व कार्यक्रमों का आयोजन**

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में तथा पोत परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार एससीआई में 14 सितम्बर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर एससीआई की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्रीमती एच के जोशी ने मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय तथा नई दिल्ली, चेन्नई एवं कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को "हिंदी दिवस संदेश" का प्रसार ईमेल के माध्यम से किया। अपने संदेश में उन्होंने समस्त कर्मचारियों से यह आह्वान किया कि वे अपने-अपने प्रभागों व विभागों के कामकाज में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ाएं और इसके लिए वे कंप्यूटर एवं इंटरनेट पर उपलब्ध हिन्दी सॉफ्टवेयर और हिंदी ई-टूल्स की सहायता ले सकते हैं और आसानी से राजभाषा हिंदी में कार्य कर सकते हैं, और इसके लिए हमें प्रतिबद्धता के साथ हमेशा हरसंभव प्रयास करना है।

इसके अलावा, माननीय गृह मंत्री, माननीय पोत परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा मंत्रिमंडल सचिव महोदय के हिन्दी दिवस संदेश/अपील भी समस्त कर्मचारियों को मार्गदर्शन के लिए ईमेल के द्वारा परिचालित किए गए और उन्हें एससीआई की वेबसाइट पर अपलोड भी किया गया है।

कार्यालय के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ाने हेतु उत्साहवर्धक वातावरण बनाने के लिए हिंदी पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया गया है। यह पखवाड़ा 14 सितम्बर से 28 सितम्बर तक चलेगा और इस दौरान हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, हिंदी जूनियर क्रिज़ कॉन्टेस्ट जैसे प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। वर्तमान कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन प्रतियोगिताओं को ईमेल के माध्यम से अथवा ऑनलाइन तरीके से आयोजित किया जायेगा।

एससीआई के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय में "राजभाषा माह" मनाया जा रहा है, जबकि चेन्नई कार्यालय में 21 सितम्बर से "राजभाषा पखवाड़ा" मनाया जायेगा। नई दिल्ली कार्यालय में 1 सितम्बर से 14 सितम्बर तक "हिंदी पखवाड़ा" मनाया गया, जिसके दौरान हिंदी प्रतियोगिताएं संचालित की गयीं और हिंदी पखवाड़ा समापन के अवसर पर सामाजिक दूरी और कोविड-19 से बचाव के उपायों को ध्यान में रखते हुए छोटे स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हास्य-व्यंग्य की रचनाएं, कविताएं, संस्मरण आदि प्रस्तुत किए गए।

\*\*\*\*\*

#### **Media contact:**

**Capt. B K Tyagi, General Manager, Public Relations, SCI**

**Email: bk.tyagi@sci.co.in,**

**Mobile: 0091-9819505546**

**Follow us on Twitter: @shippingcorp**